म कि का का का का कि के की मा का द न ही।

sin hanga

m n an an fin an in an an

hangyon iny ny my or in

m eng mang

REAL STATES

นู เริง รักษาทุก โท ผู้ เริง เการูนุ เริง พุธิภัติบุลาคุณเกาะเลง 1876.

E 28





PROF. DR. C. SNOUCK
HURGRONJE
1936

11 am an any an 2 mg 2 : ay n any 6 2 mg

mm magan

m m an any an an an an an

புவக்கிக்கோர் வக்களை

am e aig ansagn

200%

กรีเรียงสุดใหญ่เคียงลักเลีย กฤติติฤตาญเรียงเคลื่ง 1876.



NIEUW BRIEVENBOEK

VOOR DE

SOENDASCHE SCHOLEN

ONDER LEIDING VAN DEN HEER

K. F. HOLLE

SAMENGESTELD DOOR

RADEN KARTA WINATA



BATAVIA LANDSDRUKKERIJ 1876



Han as ar as a son un son san san an les in an and on my on an an and and and an an an and on an an an an an an as 2? asn सा अ मा मा वा का का दे के दे के मा मा का का का my une win an un with un win an 2 as n 2 an min un an man an un agar a a say anan mon ac 2 m อา ภ ณ ลภ ลภ กา อา 2 ลก 2 ๆ พา ๆ ลภ ลภ ๆ na an an an 2 2 2 an ay wi wy wi any an an an 2 m en n @ sa n an an an as as an an man an as as as all mon word was a wall in wall some soul of non for on a red and in all and any are เมลิ แก ที่ กับ แก เก เก ก ๆ แก เม แ mananay many and am mas and aman an as 6 Au on in of gan anon 6 An an Siens Brievenboek (Svendausch.)

En ming us wo in in in man a un En - In in un un my मा द्या है ही? भी भा की का ना द्या ही की हा हा है வி , காழ்க்கிய வையாய்யிய விடுமா ทั้ง 6 . มีเบิง เกา เกา เกา การเล้า การการ 11 cm am m an 2 (www an m) am an an 2 am an เกา อากา เกา เกา เกา กับ เกาเรา เกา เกา ர வலம் களை நீர் கல வின் வு வின் வு மு n m my rak is an any ray on as m my any any था मा + 6 अ का ए म् यू की का मा मा मा का भा र เกลก ๆขานายาเกา อากา പ എന്നു തേ പ എന് ന് ന് സ്റ്റു ല ന ന മ്യൂപ് ന หู้สาก แกลง เลงา แลกลง แกก แกล้า เกาใหม่ m w as w as an an m n w 6 4 an w an an में भी भी भी का का मह का का का भी की का मान வுவாவுவு மாட் வு விவவாகமா Il who to & Bos as on any of an any and and any and and

வரு வாயா அவு விவரவா விவ விவ வுக

กุพรุงกะ พฤ โต โต พัก เกษา เกษา โด เกา เกษา (เลง โล พุษ (ม. เกษา เกษา โล เลง เกา เก็น หฎ ฮิ ฮิ เติ เก (ม.เก เทษ เลง เกๆ พรุงก์ เก็น เลง เกษา เกษา ()

का स्त का का का भी भी का कि है का का का का का าา เกา แ ลก ลา สา กาลา เกา สา สา สา สา สา व्ह को का ए भू अ विमा की का का का का ए भ अ अ engranmanin many samo n and ad agree on an an an an and and sen den an வாக ஆக மான்றுவறுக்கூறு வமாமா வக்கள का का में की कि कि अका का का में की ह्या की होते का ह्य क्त क्या की भी का दे। | an un in win an an m an I an an all 6 st an บาเมืองเกา ที่ ที่ เยา คา กา เยา การคา หัฐกับ อาเมลา เพลาเลงการกราย 116 An man an an ang wijing am man an an வுள்ள உடிக்க வுக்கிய வக்கிய விக்க un \ an in an an an in an an an an an an an an นักษา (อาจบางกาก - ก เท็จบ้างก 6 - ม.บางๆ กัฐ an an an mountain an an an an an an an mi อม - 1 ว คา บุ อัก บุ กุ กุ กุ กุ กุ กุ กา คา บา คา บา เก้า मुकाम् कारा राम् कारा का द्वारा मुगा १६ अकी का कि मा का का की करी। है का मिका कि की की का ला 16 3 m cm an was an is cm an an in in cm cm

का मुना का का का था अभा का के का है। का का मा का का में ने का का आ में मी ह ने भी का मह co any wy con e con you a service son an your year of แลง เมื่อให้ เมื่อให้ เมื่อให้ வ காள்ளாக்கி விவிய விறும்படி मा का कर्न न कर्ता का 15 का भी कर की का का का on of an ord an an or an ord an on on on on กัก อีกเท็กเท็ก เมาการที่ เกเกางานายาการที่ नी ही ने का है की की है की है का की रात है अप ही है men mark or mining ik m m m m 1500 ला बन्ना का का का का का का का का ना का की का ना भा भा भा था? mus an m) and and den in an an an an in in an an an हा का का का व दे से क्यों का का का का का का की का हा मुका पण हार् का है। का है। का का का कि का मा wo me man wo won w m m in an an en ao un हा द अरण द अम् का मूका हा मुस्त बेता हा का सत तेंग क्य வி கா வா வாகாகாகா வா வா அகா வாகா ลิก พิก คา คิก คิก คา คา พา พา 6 - ค พา คา พ้า คา รู คา

பியிசுயி கோழுஸ்றுவவிலி பியியுஷ்ணுவ

भक्ता भवा का का का का दें। का का का का का ள் வ வ வ வுறுவாறு வ என்ற வ an an an an an an an வள்ளைக்காள் ஆறுவு காவுவுக்கள் में में देता ? का में क्या हि के मा है का क्या मा हा का है अ காயாடிக்க அடகாவு உள்ளாக்க יו מות הוו מן מן מות מון ב יוב ונח ובו לוח ובו מח ובו מחיים क अस्ति के का का का का हा का न 11 के आ का in 6 san ray n wall of in is af wil is out of மா உய்ற மாக காவுறவாற வாக்காவுற கள มา พักธา " ב เกา กาง เกา พา เกา กา กางาง เกา เกา म का वह का म का वह बेता का ने का मा क्यू का केंग में के வ வழகாய ள வு வ வ வ வு காக கா வழ வ கா கா ப்கு வைற்று வாக்கிய குற்று மாக வது wand ad an or of de son on on on ou on so and ; Il an un au man al un su mud au au au au au au la m พา เกาสา เกา เกา ธา 6 1 7 10 กร กร กก กก กา namanan wan man man in an an an an मी का कर ता हा ना नी की का हो भी की तता हा हा भी का का मान्य का का का है । दे ।

11 e का का के के की की की की की की भी भी की की க்கா விற்ற வாக முல் விற விறிய விறியில் விறி 6 अ में तो खु म का का विशे का में तो का का अ का 6 Amonan chimon 2 in 2 m n w 6 Am m w का अ में का का कि की की की की मान का का देवत का द पिल का भी की कार भी भी का भी की का का भी भी เมื่อง ปลาเป็ว การเการาชาว เบาการา முலை விகி விலாற காழகிழம் கிகி का मत्त्र वह वंत्र का के क्या का ना क्या का का का का मान्यु कार्मा का भा ने आ भी था! मा का का का का है का का निका का निका ลดา สัม อา ลด ลด เมา อา ฤ ลด เพา ฤ ณา เกา เกา สฤ ณา an 2 m 2 am sam 6 sampan 1 wo mis ag misan En ung une an un un un un un my un in an e क्या भी के की का है अ का की की की की का का की 15 m 10 10 10 7 12 00 10 10 00 m 2001 20 00 00 00 ம் வகளு வ உளவு கே வ வழக் அ.வு மான் வு an an in it ing on an an ale and e an en anna क्या भ भा भा द्वा का का का का का का का का का मा असा भारत भारत भारत भी मिली की का का की में भारत

Hans who me we wish and we would

Man s un an on on m an day day on s

பிற்ன்பிறை அன்பில்பிறு வின்பிறி விறைவில் விறியிய திரையில் விறைவில் விறிய விறிய விறிய கிறிய விறைவிய விறிய விறிய விறிய கிறிய விறிய வி

तिहास मिल्ला स्थाप्त स

មើញឈ្នែន្តរាចារារាជជា្នាក់មហុរារាជាភាពកាន្ត្រាវជាមា க்கைக்கி செய்யியிய செய் கயை வாயிய குகிகி க निसं ने जुड़ा की से सा वा किया द की की पासा ្រោះ ហិ៤ លា រាស្មតសូមបើ ១ ម៉ា ជិប ស្បូ ម៉ា មា ភិប្បារ ដឹ Figures minime me may cargo cargo man in an an est esse contract ណាច្រាយាហ៍(ហាម) ப்பாய் வயாப் வெங்கையும் வகத்தியில் விகர்க இவுயார்க்கித்பவமுகவியுகவியிலி मिल्या है जा का जा जा है जा का जा जा है जा जा กาย อา มู เมากา เป้า เล่า อุบาราย เป้า เป้า เป้า เป้า เป้า man an for man 6 An any an au ay an an e រាហ្សាស្ត្រសាស្ត្រសាស្ត្រសាស្ត្រសាស្ត្រ เลงเกียา เมาหม กหมหมหมหายเทา (พักษ ही सुग ही सामा गु हजारी பாமான் சமிமான் மன்மாழ் மாம மிவியாவி (அவி का की कि ता की देश की ती हैं कि तो कि तो मिया में ता होता ता है वह है वह का हुन वह हमासाम *

மாய வயு மா வீ வால் சா காமா ஷ்ய ம் காவு வ டிகா មួយក្នុងៗខ្មែរ មាន ក្រសួង ក្នុង ក្នង ក្នុង ஆ்வீக உடையை மும் பிற்ற வியாகிற ஆனும் y (เมติ) (รมิค พังวัง เกมู เก (รมะ เม ลิเกิก วิหลิ हत्त्रा भारत का त्रिक में महा हो महा का मारत में का हत m unining wooding manuagin nine த்துள்ள வாகுள்ளின்றிற்று நாக்கும் வ்சிங்கிழுவிழு வங்கிங்கு சுழு வகு விச ក្រាស៊ុយឲ្យយ៍ខាក់ការ សិលាម ឃ្លាក ឃនីញ្ចាស់ខ្មែលហើង ப்பபகிற்று உள்ளையாக்குள்ளன் கு பளர்கள் பாகம்கள்கள்கள் காகு காகி សោធា ម៉ូ ដោយ មា ហេ មា វេហា ។ विष्ण भूजा का हा कुर हा अस्प्रमान्यु का त्ये की 116 san an an an m an in ry an janin a an an : lean manguning manguning a min ng manguning

किकान कार्याता शिमाना कार्याता में कार्यात्री मुस्

មានជានាស់កា » កា ខាររបានមាន ដែល ខាតុការកែរ ជនាលិខា សមានមួយមើយ ជាមួយក្នុងខាងខែលោខ ប្រមាំមួយ រយៈមានមែល មានមួយមួយ ខែមានការកែលខេខ ហេ សូម៉ា រយៈជាមាលមានមួយមួយ

្រាស្ត្រី (ស្វីហេស៊ា ភាសា 🔻

சர்காகு அன்றனையு ஆற்று சர்கள் அன்று சர்கள் அதி விகி சர்கள் அதி விகி சர்கள் அதி சர்கள் அதி சர்கள் அதி சர்கள் அதி

क्रिका का का का का सम्मा स्मान या ना นภ แกลง 6 สภา แก้ 6 สเครา ๆ เกา ปลา รี้เกลง เพ (कार्मा का काम कार्यक वर्ष मान का म्यून कार वर्ष हो हो นที่ เด ยี .அ.ขนา แท นา เล้า แท เทา เรียง เมา สังกลา (__ ุ ุ ุ ขนา แา म्त्री क्या का मा कि दे क्या का का का हार ह का ने का का का (क्या का के अंग्रें का द अका का हा विवाद का का का of municiples or or in an a real or mens willigh के अप द अका मा के अप का का का का का की का का द्या की का की का की का की का का win on 2 and was an on on 5 20 2 and 3 m on on on का कार का करीं का का का का का किए हा की का कें आर्था का हा है अ मा का केंद्र की भारत कुर के कि करी है सका की का का की ता हूं। 11 உள்ள வாவ்வான்ற மா! 6 அளவாள மற का भा का का का भा का का का व भा का व का न का றவாற மா மா மா உ மா ப் வாவ் மா மா மா மா இது வ க கு நக்கில் க க க ஆ கு கு கு கு to an as wo ken with as no and word and as all ทุงบาเกลา เกลก รักษา เก็บแลง เกา เกเก

on in on an en al ord od od od ou ou ou ou o மா மாவ வுறையா வரு யுமா உளர காவாகா. हा की हिंग हो का का का हा कि का mon Amountman?

and on cer ord al own on

யின் காள வு 6 ஆற்ற காவவுள்ள காள காள மாமாமாமு வவு வாலாகாக் க்கா உணம் காள ६ अ.वडा का का का का का निहा है का का मुका का मुका का வை வகை விகையில் स्मार्थ ३ विसासी स्थाम ३ स्था वह का वह ता वहा का का BAMME in the min மருக்க வாவாவுகாவுக்க வார்வு என்ற வாலாவா in an an in an an an an an an in in an an भी का में का हा उस्ते उसा का सुर का म का का भवाया namari aj mz anjænamin Mare Fred on what are on and on in as an on का दा का का का का का का का का का भी an an e an mo an வரிய அரிக வலர்வா தேற்கு வல்லாய் பில A m con an in con an an an an en

ll and common of the con an an an an an an an an Nieuw Brievenhoek (Soundansch.)

was with many 6 som was an in e and asy ungan an ang un an an ang ang ang ang ang ang ang พาส พิ ผ คิญา เว พาว กา มาลา คา กา भी है। ही मूर्य की कार का का की की भी का र पह की का

मिंद्र का का का का क्रा अका नी का की क्रा की क्रा ik an 2 in 2 ang win ak am an an ang in um am an an ? கேள்ளவ கோறு வைவலாற கேல்? का १ मा १ मा ६ अकी १ (मा का मा) की में की की मा में की का का ह हा ह की का र्ज का भ भ बह भार के भी भ का வுவா வுவிதன் வளவாகு வைகவ் கள อา อากาญ เท็าอุบายา และ การายา - การายา และ mar my

ll an may in ay an & sain an of un & an ain an an and an an and I on an and an on a con and เมาเทาสา เมาลา ๆ เลา เมาสา สา เมาสา เมา พางาราการ เกา เกา เกา เกา เกา เกา เกา เกา เกา เก้า พูบ เมาการ์นุการ์ เมาการ์ เมากา

Il and we would an son son son a and are any พีลิก สเลา ? พายา ลิ ผิ ลัก ลัก เก เก เรา รา ลา เก หางก็ เรียกงาน หา ๆ เกา ... เกา ภาคการ กา เกา เกา กา

मिं के द अश्विक का मान का मान के के के कि का मान के का मान का मान का मान का मान का मान का मान के की की की का मान का मान का मान की का मान का मान की का मान का मान की का मान का मा

អ្នកសាសលាមយុទ្ធ កំបាន ខាន់ អាមាយ្រ យុវិកាឡា ស្អាសិន អាមាយស្រាស្ស កាចារ្យ ៤ ចោសា ឃុ ឃុំ សិ ចោ្យ ស្ម មាសិ អាកា ៖ អា សិ អាកា ឃុំ សិ ស្ដី ស្បាសហស្ស អា អា សិ សា អា សាស្រ សាសាហស្ស សា ភាំ ស្មី សា សាសា្ស សា សាស្រា សា សា ស្មាស សា ភាំ ស្មី សា សាសា្ស

|| का का द का क्षिया द का कि का का का का की का की की का का का की का का द का की का की का की की का का का की का का द का की का की का का का का का का का का ना द का की का के द की का द का का

निर्मा क्ष्रिक क्ष्

மாடை வி வியைய்கியாய வக்கியை வுமைய் விவையை வுறு வாக்க்கு வுறு வை e " का वह का हा का न्यू मा का 2 m म का वह केंग के वह मा की कार का भी का का का का का का का का कि न की का का का का का का है का का हा हुका मुका को वह केंग พิลิ เพลา เมาเลา เมาเลา เมาเลา เมาเลา का था 2 की ही भी का या का भी का वह का का का भी या की का का का का का निकार की का का ना हिला का का का का mon mon on an विक का का का मान करण में का पर कुछ का का ना की का की का เปลา มา เปลา มา เบา เบา เบา บา เบา เบา ผา ผา เมื่อง เม เม เม เม สา สา ลม เม 6 สเม เม วัก เม का ना भी का का का का का का का का का की की का का ना भी या का क्या हु का का ह नाह कर की वा का की की வுக்கையுக்கியைய் விகிக்காக भी त्या भी मा क्या कर का का क्या कर क्या कर कर कर व्याक्त क व अक्षा का की द्या अ अक्षा की " 116 अर्था का का की की का हा का का का का की हा की का an ampin

Hornay and ad an an an an war ans an was an og an an man in 2 n man an an as as m n as as का की हा द अ मेंता । का बेता का ता मा १ मा वा का बेता की Man the man man a misal En agagaing an zangagan man zan zan zan e मार्का म्या का ना का का दे आ का मान का का का मान मान का का का का का ह का क्या का का का का का का का कर का मा का का 2 and war green and wood on the on w या का का अरों का भारत का भार का का का का भारत का वह का का भारत भारत का का का भी गु हु हुए हुए हुए हुए हुए हिंदिन का की भी है है। क्ता कर्ता का न का हा स्ती का का की सी ता का का मिका 6 मने का का का का का मा का का न का न का का सा ना सा ह्या की ता भी सा नी की की की की का का ला ளி வுகை விகே வி தி கி கி உள மா வுக மா क्या ह अ भी की की क्या करा करा का की की करा कर म् गार् केता का का का न का मा का का का की तह कर की हा का टका में में का स्था है से में में की में किया 6 A am an El and am am and un som and " and an

. Il ad ad un on the wal as and and some year we well all เมณาเมืองเกายา มาถึงเมาสุดา โล้ เกามุกาล माना नामा की का की का में का की का का का का की मा खुन म्यू में का कि का जिस्ता न मान मार है พา พังเกา พฤ สิการา เกา เรา พา เกา เกา เกา का मुका मुख्य के की की का बर्स मानु का वा ही ही की மான் வாகாக வரிய கரிக விர விருமாவிக் ริกาลากานาก เกา้า เกาลัก ลกาก กลา กละ ลากา ลา พาล พาวัลทาง พาธิกาวภาขา พาวัการการการกา ลา แก สา สา วุกลา กุลส ลา กุ เกา ลัก ลา สา สา n am an an an am am any any am 2 an an an an 3 an के भा का का का का का की का का है न का कित न am wo an m m 2 ton an am an ay in 2 an an 1 " Il m m me spar on 6 sam og og on an in:

164memannandaligine,

महित्य क्या प्रमाण के स्व क्ष्य क्

मिया का मारा का न मा मा का है केन का की की की की का का है कह की का है का कर्त करता एक त्या करता क्या क्या करता करता वर्ता वर्ता वर्ता वर्ता वर्ता อาเบากา วัก ผู เมื่อมู ๆ เรา เลา เกา 6 2 m m m m m m m m m m m m m கு மாட்டிய்வு வன்ற கா முக்க கலாடமா के स्त का मा का द का का सा द की की की की की 6 असा अग सा सा या या का में वह दा की सा सा या या की का की कार का अ का का का का है? द का की का की का का मा ह्या का का ना का जा अभ की की भा ญ เมื่อสามา เลือด เมื่อม เมื่อม เมื่อม สา การาง เกา เกา เกา เกา เกา เกา เกา เกา สา வுகான வுமாக் மாக்கி வாகாவு குள்க்குள் क्र हा वह १ का गा १ का मा मु का का द अवप म् का हा ? ทางกา เลาการญกายทาง 6 มที่ 6 มณา มกา canay non man and and an an an an an an an

। कारिय म्यू की वह रिय का न को की का अक्षा का मुका या का का (की मा) या मा वह का की का मा का का हा का देश की का का प्रांत की की 11 @ अस्य क्या क्या क्या क्या क्या अक्या क्या स्वा स्वा स्वा स्व สัการเลาเกานิส สัการเลาเรา อา เรา เกา สัการเลา ภัก भी का भी कार का हा हा का का का का हा हा हा का का का का की भी का हुए का का का की की का का का का का का का வீடு அவிய விய விய விய வியிக்கியில் Jan 12 2 2 2 m al al and Jan my my my mon s an ang " The was an an an an an ang ang ang ang ang ang வே வையாயாயாயா வாறு வி வாகுவும் வா கு வாக்பி காகி காறு காறு குற்று குறி की ब्या क्या का क्या की कुछ करी करी की का करी कर mangu

मा मा का की मा का का का का का का का

म्म का कि मा मा का का मा का राम का का मा का मा พางก วิณีลภา 6 วิงกา 6 วง เก เก สา สา สา का 2 का की का का का का निका की का की का कि का นิเทิด ลุกลทุ เทิดตลนินักตา 6 วิเคกุ भी द का का की हा का भी हा है। ह मह हम कु की की ลา 2 พาลิ ๓ๆ ๆ ธิงคา (เกลา 2 ขาา ขอ) เ मिं के के का का के द अरह का या का का न का का का म्त्राम् भी मा मा द स्तर क्या ह भी हा हा हा हा हा हा क्य का भा का वह की का भा का की की न का न का พี่ เก็ เล็ เล็ เก็ เก เมา เมา เก เก เก เก เก เก เก เก เก பிறு வட விறு வ வுயியியியில் வ வி मा भी मा क्या का का की का हुए का मा भी की ขางสิ พาย สายากาศ สาขางกากลา กาล มา (กัก กา กฤญาก เลือก กับ เกา หญา மானு வுறிவில் விள அறாறு உள்ளிய พิลาลาขางกา พาเตากา สุขางเอา ที่ เมื่องล้า மா கா வா விழியாக அமா கா கா வார்கள் வ விரு வ விருவிய வ வ முறிய வ வாயி म्बारा अप द अष्ट्राम व्यक्ति से का का का मा

กางเกายา พางเกายา เการะ เกางการ เกายา พางเกายา เกายา เกายา

11 am an an any 1875 w

किया प्रकास उप्तेम का गणा बीय का सी (सुसुसी)

No. 1.

in may 4 is in in h 1875 ...

38 12 m

magni Gamille Gaming (

Nieuw Brievenhoek (Soendansch.)

S

No. 2.

សំណាញ 10 «ស្វេរាជា 1875»

25 mg 25 m

> 6 ครั้ง เกษายน เอาการตาว (ผู้ เกา. เกิรถุ (เอาคุณตายนก) (เ

न्त्रिया क्षात्री का क्षात्री क्षात्री क्षात्री क्षात्री क्षात्री क्षात्री क्षात्री क्षात्री क्षात्री क्षात्री

No. 3.

inmay 15 15 19 11 1875 x

รริสิกษา ภาษี 34

และเกาะเรียนสาก) (เกาะการเกาะสาก)

No. 4.

in may 18 is in in h 1875 x

เลิ้มีเลยา เกาะเรีย 24 %

> > (en mass sug (en ma in en mag) «

และสาราธาณุญชก การาชายก ผลวิธีเหตุ

No. 5.

inan wy 50 is yu n 1875 x

23 m2 35 m

भाषिक का का का के की की की की की की की की की का ना की ना का

> บทุเมณิธมห (พาพูวภาพาครู)

manay 25 quigun 8 1875 .

23 May 1 72 N

แนกลูกสามก กฤษฎติศักรายกลิเรียกฤจ

No. 6.

ள்ளவு 8 qui அயகி 1875 ×

22 66 N

मिला भाषा माना है के हा में ही भा हों हों का का माना का है के हा में ही का माना माना हा का में भी का ही ही का माना हा का का माना ही हो। माना है का माना हा का का माना है का का का का का का का का का माना है। का का का का का का का का माना है। का का का का का का का का का माना है। का का का का का का का

कें का भा भा का द अभी का की की का का की mis man e maniferan man க்கை நக்கர் கிக்கவிக்கி พาการาการาการาการ 46 AM ผีเทพ क्तिक्राभ क्तिक का अश्र के का की का ॥ Il ma y we was on on on on the and 1 2 m as an e an in on m as 1 750 as (a) 400 1 100 400 100 2 100 2 100 2 100 2 25 mg (15) N 1 mg (w m v m m m m 6 2 w 2 m m ถือยากา พถุกศุทธิ์ ม ยากั வு வியிய வாய் வியியில் வியியி ហាក់ខាត្តគឺសិ_ម

> ಕನ್ನಾಣಕ್ಕಾಣಗಳು ಸಾವಾಗಣಿ(ಕ್ಷಿತ್ರಾಪ್ ಸ್ಕ ಸಾವಾಗಣಿ(ಕ್ಷಿತ್ರಾಪ್ ಪಾಗ್ರ)%

แพงเลียมากับที่ เมามากา เปลาเลอาสมุญกับที่ เมามากา อาสม No. 7.

ന്നസ്വ 14 qua നോന് 1875»

รสิติกรภา วกรซิก 57%

ளு மாகிக்கவு (பைது போன ஒது) **

ากลาวอิธองบลูร(ซึ่งมาาเปล

No. 8.

ന്നസ്വ 19 qu ആവടി 1875 ×

28 day

(am ya un er ray) "

may or gran may "

No. 9.

isn mm ang 16 Én asng 1875 x

20 20 109 ...

मिला ही का की का में का म में मा की का स

(month and)

11 Senson

more some men and und some in sold

No. 10.

ள்ளவு 7 கினு 1875×

อดิสารากา

ยุกนึกทุญเกลดรา

2 7 m an an 6 A w of an an of an an บุ เมลา เกา เกา เล เล เมิงเท เฎ เก โก คำ เก และสาราคา ริงการาลาวักขางกุลา พายา ารุสิกษาสาราชานาสาราสาราสารา ॥ भग का का का का का का का का की का द न म् वा का का का ना दे नित्र मा का की का द अ க்றி வகியின் கிய கம் வயில் காய் का की का का शारी हो की का मा भी की की का மாலா மா வுகாமா மு மா வா மா மு மா भू का र्रों का भारत का वह दी का न का भू का का शतु का का का न (के का के क्या का का का வுமா வாழுமாகா ப்ற றுவ அடை இமா • พลเพียง วันเทลาเป็น เกา เมื่อเก म्हाका भाषा हा ना देवा हैंगा ह का का भा man and and and an an an an an क्षा भा भू भू क्षा की भी की क्षा क्यी " 11 am an an : का की की की का मा निका का ना म्यु की भा में कि द्वी का भा की भा अ में स्थ स्था वह का कुम का की का की का अकार หา ภาย ๆ ว่า เรา เรา เกา ว่า เรา เรา ๆ เกา

> क्ष्म का किए जिस्सी (का की का का की है) है

กูติกายก กากจากอาการกับผู้เหมาก ครูงเ

No. 11.

asir ann ang 4 én ang 1875 %

13 20 23 110 a

गिर्द के द्वा के स्व क्ष्र म्हित का काम के काम का मा (क्ष्र क्ष्रा के के का मा) 20 की कात 6 के कि का का के 2 का का का का का का का का कि के का का के के का का का मा का का) "

> 25 vir sem un in an en en in en (en en en en en en)

No. 12.

inmmi 25 (4) mg 1875

23 Mag/ me€ 112 w

มกุราชิกระสกฤ (มกษุฎมักจางกฎก)

แลงกรั้งเหต เกตรมของเมษายน

No. 13.

manay 27 6 a gruj 1875 %

2 115°

> อะครอิงเล เราะก งหลางกลาให้ถึงเท เกิงกุ (แก หกุลเก เกษกุ)»

No. 14.

សំលាល] 5 មុខធ្មា 1875 🔊

28 May 141 v

निस्तिक क्ष्राची का दिस्तिक क्ष्री क

(mentionen).

แนกหมูยกสทุกใหญ่ต่างเรื่องอยู อนูตายเลือนที่เกิดกล่างเกา ธะเพ No. 15.

in many 18 15 € 1875×

อภิธิกรกุง อกรณี 215/2 รภาสการิณีการกุง

ะกุณเลียมทุ วักผิช

மகிரளவுவவுகளை அவு (மறுப்பக்கு))

แต้การ การุเภายูเลา หาริส (รูวุลก วักษา ளாரு 10 6 அளுது தரமாயுள் கிலி கூடிய 2710

> ह्यातीयात्रका भागभाष्ट्र(श्रिमा-तेष्

Benjinkan ng gang Benjinkan ng ganan Benji

No. 19.

in am my 5 6 ... am min 1875 >

นริธิกิลสา พาร์ล 55%

20 (29 m in 6 209) %

ั นีการกุลเกติก สุกาพทุกเลยเลยเลียลกักกุล No. 20.

कांकामा 8 क्याप्य ही 1875%

20 191 W

> 0.5 50 vo. m vq (vo. 0.0 50 vo. 0.9) v

แบบ เกาะสามารถสายการ เพาะสาราการสามารถสายการสาย

NO. 21.

कंत्राम् १५ वृष्ट्यास्ति १८७५%

and 70%

(my and mong).

พอสารสังหา พอยามูลสามาโพง

NO. 22.

inam ruj 12 yom 2 2 1875 -

का का हा की की का का का का हा की ता हा ผมแลามผลเอาถูกในกับเกรา के क्षा का का का की दे हा का की का की and well in llm & y y y y w w s m m m m m m m क्यों भी क्या की भूत का भ्या का क्या की भी भी भा भा in in an an any 6 sens any on 6 sens of e 0517 %

No. 1. @ an in ag @ (in ag ong : 6 sang) No. 2. m nun na .m ng & (in m un 6 - 2 ng w 11 உளவாயவல்லா 2 வு காளவுள்ள का रेल क्या वह की हा ने ही की वह की भें का ญ เลยาผู้เกลานุณาลาการ கையாக வக்காகி விக்கு விக்க का में ही हो क्या भी क्या का हो हो का का ह हो 1 นิกางเลิว หาลา ลิกาสานา ลา เรา เรา เรา un ed est

6 to Then the was mis (ming (un an un anang) w

Hanting to way or hatel ain le en an En ag ris me en so sang a No. 23.

क्षेत्रमञ्जू र मुख्या की 1875 ×

3 205 v

11 m & n & n m ag 1 cm & m w w w m n न ता भी का की क्यू की की के ना की का न का and an an and 2 and sun an an an w 160 2 6 27 an an an an an an an an an เมื่อ เกา เมื่อ เมื่อ เกา เกา เมื่อ เกา เกา เมา เมาสาด เล็กเกมพุพาศ (นิเตนิ) เล็ का हा र भा मि में का कि म मूर्व भा भा हो ही म म म है मा ए ए ए म म म म के म के म ए สาขพพา พิพพราคา เกา "Town Lin मिल्लिक का की का की की की कि की का की ลักๆเกลา เกาสาทาง 8 เกากาลา ภาบา 10 2 En 2379 man & 4 m w was an en win म् कार्य ने में का कि के में है असी 7 mm 4 m m m m m m 12 07 am 2 km 1875 an 2 km 119%

ျण महा भूत भाषी ए का भाषा भाषा की ए की का भी की हैं की भूत भाषी भाषा भी भाषी की का भी का भी का भी भाषा भी भाषी

(61 89 53 62 84) V

การเกาะเลยเลยเลย เลียงการเกาะสุข การเกาะเลยเลยเลย เลียงการเกาะสุข

No. 24.

in an au 20 y am 2 2 1875 ×

า ผีกิญก พระ 176

เกลา ผู้ผู้เมะ โลย เกลา เกลา เกลา เกลา พลางเกลา เกลา เกลา เกลา เกลา เกลา เกลา เกลา เกลา เกลา

> (mangaggan mang) nangaggan mang nangaggan mangaggan

แพระพุรพุธษณีผิดเลยาสุด) พระพุรพุธพิทุพิวพิรติดการของจุง

No. 25.

ตักสารมุ 9 พวศมยี่ 1878×

เลิติญา พานี 1932x

> म का ही की क्षू का का के म्यू का मा का क्ष्यू म का की की क्ष्यू का को म्यू की का को का की मा म का को में मा का का मि के दि मा हत का का कि का का का की का का का का का का का का ही म का मा का का का का का का का का ही म का मा का का का का का का का का ही मा का ही का का का का का का ना मा मा है की क्ष्रंग

> ளுவனிவேஷ (மாஜன்னலு)*

าง คายา เรียก คายา เลือด คายา คาใก

No. 26.

ន័ក ហាស្បា 18 ពុធា១ពុលស៊ី 1875 🕻

ครรีว 250 m

मिट कि क्षा का भा भा का का भा कि के क्षा क्षा का कि का का

> าาลทางเหมี(เมื่อกา เก๋ หวุ (อเมลูกลัก เขาลูกู)จ.

and som mode

No. 27.

ត់លាស្យា 10 ជាជាមន្តិ 1875×

รริติญา พ.ซ. 153 อัญพาร์ตรอง 5 ง

> निक में क्ष कि कि न क्ष्या क्ष्म ने मुंदी का क्ष्य क्ष्म की का कि का कि का का कुँ का कि कि कि कि का का कि कि का का कुँ का कि कि कि कि का का का 14 का का कि कि

> > காவன் விஷ (மாஜன்னனு)

พิรับบาลอใบปราชิตของผู้ใช้ แก่ นุกปัต

No. 28.

តំណាល្ប 11 ។ ។ ។ ។ ។ មេ ខែកុខ នៃ 1875 ×

มีเมื่อสูง เกาะ 392 •

मा का की का का ना का की की का की की का की की का की की की की की का का ना का की की

กุล เมื่อ เป็น เมื่อ เกาะ เมื่อ เมื

> 6.45 mag 24 1212 mas 26 mag (2012 mag 26 mag

เมาสามา อาปายาเมาราย ลาป. เมาสามา อาปายาเมาราย

No. 29.

கள்ளாறு 9 **ர**வரவதி 1875%

ระหางภูง ภาย 2574ง สำคัญญา 1ง

> > (men inary)

มูลิกัลต และมากลับ(ผู้ลกา เพลง No. 30.

कंतामा १५ व्यवसारी १८७६

2999/₇. 2999/₇.

> > โลยุนุน มเทเนร์

รัก เก เล กุลภ เท เท เก เก เก เก เก เก กัก เภ เล กุลภ น เก กุล เก เล เล กุ ก เม เล กุลภ กา รุ เภ เท กุลกุ กุลกรุง โก (เก้า เมื่อล เอ เล ลู เม กุ เภ เม เง

b. || an wing : @ 25 to 25 to 20 mg mg mg

G sam wing ang mg an ming wing mg

on en 25 to my shigan min wing win shi to mg

G saw to m m wing gan an min wing win shi to mg

G saw to m m wing gan an min wing win shi to mg

G saw to m m wing gan an min wing win shi to mg

G saw to m m wing gan an min win shi to mg

G saw to m m wing gan an min win shi to mg

G saw to m m wing gan an min win shi to mg

G saw to m m wing gan an min win shi to mg

G saw to m m win shi to mg

G saw to to mg

ในเลินอุนานนอยานนอยา

a. | @ 25 m n w + 26 n m + 26 m n n n in n m w | w w w w n n w & m an m m m n m m 2 m 2 m

ชาวุณ ๆ เม ๆ เม้า ๆ เกา เรา ๆ เริ่า เร้า \ เร้า เรา เกา แก เกา เลิ เกา พากา เกา \

ใหม่ผู้เหมียนเกษา

ผม บุนเมรีเมชหมานี () (ม.เมา เก เก เม เม้า เม เม เก เม เม เม เม เม (ม.เก) เก เม เม้า เม เม เม เม เม พ உ เม เม เมา เมา เมิ เม เท เมา หั เม เม ผู้ เม เท เมา เมีย เม เมา เมีย เม เม เม เม เม

เรา เกา เกา เกา เกา เกา เกา เกา เกา เกา ผา เกา เบา เกา เกา เกา เกา กา กา เกา ८६ अभी केल का ខាយា។លើស្គេលមានលើខា ។ មាប พาเป็นส เมื่อเก็บาวาคาเสน์ส ทาเกา เมื่อเก เกษาเกล้าเลาง เทาแกง เกเกลาง का केता होता का का का का वि का का का का का พาง พาง ๆ พาง พาง เมื่อง และ เมื่อง an wan was an an an an an an an का कार ही का मारा है का र हा का हा है Te m 2 m \ an am an un ag ay an an an an का निम् एक का न्या हा द अला का क्या का वा व का नी ng un you ma in m on a win in is my 11 m an m an an a m m m an an an का न की का के का का भा मा न अन कर majak wo my am wi an an m m m m m m m m 2 w m 6 3 00 2 w m m m m ญ เ เลิก เลิก ะ เ สัญ เกษา ๆ สาเท กุเมณิธิเทาสานารถ เกา สาก

Nienw Brievenboek (Soendausch.)

อีกเกาสาราชาชาชาชาชิก เลาสาราชาชา อีกเกาสาราชาชาชาชาชาชาชาชา เการาชาชาชิก ธ เลาสาลาราชาชา

ในเทียนินักมา

Honey are ad as as as and aron of of ย์ มหา มหางาง เอเกา เมื่อง วัน เกางา า แก ผู้ เล้า เล้า แก้ เริ่ แก เก คา ผู้ กา แก முறு உள்ளவுவர்கள் வாக வாக்க @ अभी . का ए का का का का का का का का मा वारा अवस्था का वार दे विद्या हो वहा वहा मा เยารายาลัง แทกกากาเอา ๆ กากาบากลัง an un as is an in 20 an an an an al an an an a way " 6 sa an - any an an of m m & ci an m w m an in in m an on a की की की हुन की की की की की की का แกลา เกิบลาที่ ที่ รุง गामा मान भी कि ते ही ही ही ही ही की का ना र वर्ण करी । का की भी की का का का हा देश के वि क के कि का का का का कि के का न का

म्या स्ता का भी का स्ता स्त ६ अ में ॥ का शी ता व का का त्या देशा त्या स्ता की का १ ट का स्ता म का देशा त्या देशा त्या मा स्ता देशा की का ती स्ता त्या का देशा ता मा का की की शाम की की की स्ता ॥

> куля вывэля (инуулы илту) а

> ្រីសាស្ត្រ ភិបិលខេត្ត ១០១៣ ស្ថិតិ (ស៊ីសិស្ស ស៊ី) »

> > मित्र मा का असं के लिहा के की भी का का का का का का का की की का कि कि का का का का के की का कि कि का का का की का कि का का की के असी हैंगे की है कि का मा

G 24.49 11

เกตุ๊น เกายาก มุมิกเกตุนักต์ เกติกษณี เกติว 6 มกุมทั้ง 6 มหุ เกผุ้ โกษุ ธา มิถึก ผูผิงผู้นิ สุพิติ ฤธาชาผาตำ การกุ 9 กุมกุ กุมอี 15 ควริย์ 191%

> क्षित्रम् ज्ञायानुस्म (भूग्नाद्यम्)॥

16 mg garis mag in may 25 squarey 1291.

II.

]] an ay (m) m n m an in ay an 6 An ay m 6 Any "

b. 11 वन व्यवन हा वह क्षेत्र हा का के वह का कि की मा का வி வாயுகளி சாவிவையுக்குவல் un ang un ag ag am an क स्था हा का का की की की की की की कार की क का ना मा द असी का असा की सा का ना द की की न्या का मार्ड अकी हो की की की की का गु था। की मान्य का मा का मा का ना वह द अ की। ญ เม สา สิทธิ มเบ เบ ๆ กา สาร เก สิทา เก มูเบ นาลาสาสาสาสสาราง ขายบาลากากากา म्या क्या क्या द्वा का न्या क्या क्या का का का കാ ത്യാനന് നേകാ വര്ത്തില് പ്രത്യെക്ക് ക கு வையை ஆய்வியியியியியியியியியியி हिलाम भूता वा की हम कि का में कि का कर कि का வூத் வாய் வியையை வாக்கியைக்காரு வாக் கி கவகியில் கவில கயக்கு வாகும் म का दे क्यों को का का की मिक्यों का में का दे क्यों की की an 2 an am y am 3 am an any an ag an " an an an many man and man and many man & A

ป. กาง พางาน พางา

e. मुक्तु मार्था की नका का का का का का का का का का

भी की का कार द अ हम हम हम हम हम हम हम भी की का कार द अ हम हम हम हम हम हम हमी

295-25-21 11 11 11 12 13 11 14 (2019) 30 27 29) 8

Horamonte son inmore 29 aprin non 12910

III. भूकित क्ष्म की का का की की क्षू की का ता का ता का का की की की की दुर्की का ता ता कि असी "

> เทษกุลงกระการเลานึง (เกษกร์กษาคุร)ง

IV.

வர்காகும் காய் சியிர்கி வி. வாழ் விகாளமாக

เกาะสูที่สำหาก (เกลาะกาก)*

11036 407 20/4 75%

1 som no say 25 was 1290"

> อีรสุรเมาาเมืองกุทามๆ ผู้เพลากกุ (พายุกกักมาการ)ง

promotes quanty 25 gray 1290x

VII.

กุลายา คุณ ลา ลัก ๆ เพิ่ กๆ กุลายา ผู้สุดเลืองสุด

मा देंग की का में कंत क्या का मा का का का की का का का का का का की की का

การอาการ เกาะกาง

wan eo Saenago 20 20 20 in (un y in en en 1) v

11 inmay 27 in hang 1290%

VIII.

11 2 m m n m m m m m m 6 4.

และกาง เมากาง เมาก เมากาง เมาก เมากาง เมากาง เมากาง เมาก เมากาง เมากาง เมากาง เมากาง เมาก เมาก เมาก เมากาง เมาก เมาก เมา

> िह्यु को ब्यु का (का कु के का का का)

11 mm my 20/4 70%

IX.

भित्रमा का असंकार हा ती हा ती जा पुरा की क्ष्म का का का का जा का का की का का का का की जा पुरा के की का की का का की जा पुरा के की का की का का की जा देवा का मां की का अस्तु की

> (வருள்ளது). (வருள்ளது).

yand nigmay 17 nam 1291

(moninary).

Horan managinanny 7 navan 1291.

XI.

umbrigmay 29 ming 1292.

XII.

และ และ เลือง เลือง

> มากมาราชินาฐภาคม (มากุฎามาการกฎ)ก

wind sequences 5 newing 1292"

XIII,

भिक्त न क्ष्म का की की की का की की अ (क्षा न मका का नो भी का की की ह अभी "

> มหมฐมนิฐมาต (ตามูล่างกญ)แ

11 sin mong 12/1074 4

XIV.

> किस्तरकारी द्वाप का (कास्त्रकारा कार्र)

แลกมีกลุ่มกาญ 19 ผม 1290 x

XV.

> ลากเล่ากลา (ลาลูกล่องเหตุ)แ

11 mmy 50 was 1290.

Nieuw Brievenboek (Sacudausch.)

XVI.

แผน เมื่อ เ

.,

Degreenszagne (maginesson)

กุการเอาสารุลักษากุก 17 กุลาใหญาา 1875

XVII.

11 2 m m m m a sag my m 2 m

4. वित्रमा अ का म्त्र म्त्र का का ना पा का का का ना ना का की म्त्रिस्त का का ना पा का मा का का ना का का ना का की का का का का का का हि ना कि अका का कि की का में भी की की का

की भी का भू भी ३ भा ३ की भा की तू ता है या। ह अध्या का भू भी ३ भा ३ की भा की तू की की

6. ស្រុក្ស ឬមារីកាស្ត្តមាន លេមវ៉ាក្ស បាក់ សល់ ទោយមានរុវិធា មារ ៣ កាប លេម្ប ទេសលេខិត្តមារិល កំខាម្ប ទេសលេខា សុប្បក្រកុវុក្ស ខាស់ ប្រក្ស មារ៉ា មាសនេលល នេស់ «

มาการกฤษกาศ เกาย์ เมลิก

yenmany 7/274

นะและรัฐปล. (เมลายนาม).

1 5 mmy 10 6 & Gray 75 %

XIX.

वित्र का अध्य के कि का की की की का का कि की का की की का की की की की की की की की का की की कि अभी की की की का का की की की कि अभी की की की का का का की

(mysnana).

11 on an simmy 15 onle of 1875.

XX.

शिक्ष मा का अस्त की हा दे पा कि हा की का का कि की की का की की को कि की का की 6 असी की की देवी का का 76 असी 8

washingsaffangangin

you aminmay I warmy 1292

XXI.

भिन्न क्षान्य का क्षान मा का न म न्या क्षेत्र का द अस्तु वह का अक्षे द अ

มหมฐานิฐานนี้ (เกษาย์กเรษา)

Hommos anginmong 6 mang 1292

XXII.

มางเลา เมื่อง ปี เพิ่ม เมื่อง เมื่

ចោយលាល់ខោត ភាំ ត្បូន ចិ ច្បា បា លំ ជា ចាំ កា ហ្សា 15 បា ហ កា ភិសិលា ។ ឃ កាំ « ប្រ សិលា សំ ។ សា សា សុំ ៤ អសិ សា ក្យ មួ កា ៖ សំ ។ ឃិនា សុំ ។ ឃិ បា ស្រ្លែនា សិ ស្ថា ស បា ស្លា ស សំ ។ សាសិខ ស្បី កា សា សា ស្រ្ត ហិ ស្ថិ ហិ ហ ស្ថា ។ ឃិ បា សិស សា សា សា សា សា សា ស្រ្ត ហិ ហ ស្ថា ។ ឃិ

> เมนาสูกับสุขาม (เมนาสามา

1 2 main 1295 x

XXIII.

|| മെന്നു ന്നാന ന്ന് എന്ന് എന്ന് ന്ന് മെന്നു നെ ന്നാ നെ പ്ന് എന്ന ന തീടു തിനെ നന ഒകു എ ()

து கூறையில் மன் மையர் 6 கண்டிறு 150 \ மானியு எய்கு உ

มาบฐาที่เผลกุ่นทรมกู้การนี้ (เพตุนักเหตุ)

11 min nommany 5 main 1293 "

XXIV.

G 28.007 11

រាស់ស្រាស់ស្រស់ស្រស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រាស់ស្រ

(सार्धिकारमध्ये)» (सार्धिकारमध्ये)»

pinming 5 25 19 20 7 1876 1

XXV.

umaganagana (unganang)

1 mmny 28 Gey 1874

XXVI.

हा ना वा का की का का की का की का का ना

हा का ६ असी का का वा का का का का का கினு வ்றுள்ள உகி வகளை இது வர்ள रेंग क्या क्या वा ट का का ही का अक्या म का दू का की की भिष्टी भी ॥

among master of (man in m my

1 immy 12 mar (cque 1874.

XXVII.

॥ का लें का कि क्या का का की में ही का न द म का की मान भा का का 165 की द का हा का भी का भी का भी न कार कार्या का कि कि का का की में ही की वा की war and an an and out on wold of an and and and an का की में ही की का का का का

isna son minas say

1 inm 2/ 16 yulequen 1874.

मिला न का का का का का कि का ना காளவுகாகாகி விழ்வி வி

mne Angu

मा का ना की का वह कोंगू का का का ना का की का का का an man and all an "

11 w 2 के स्त्र के का की का m m 6 अ म का का m m 12 ला मा का ने केंग हा का ना हा। का 2 का का की की ans an any 150 an ay an an as ay an an an wante tina and an us an stant mis an an an an in an many 16 an an 2 an 2 m के का द वा 2 का 2 का का हा न का मु का मु का Il an an am as mary 17 am main an an asy : 6 3 non an an a con an an in in ing a same เกียาทุก witkijk กฤษาคนาที่ก็ถือกา กางการักษากางกางกางการะยา e an agan no an man 2 am un ny an am am านางสุดเกาง อักลาให้ เกาง เกา เกา मा का मा बह वह वेंग का का का रूप रेंग मा का मा की เกลา าลาลักลาย แ ลักลาลสารุลาลาวักเก मा का का का कु का का का कु का का का का का ம் வள்ள உளவுள்ள உள்ள வறுக்கள்ள of an of an as a ray of an in on win भारता का के के कि का का का का का का ना காகாவாறு உள்ளக் காகாரமாகாறது கா राका सामा मुका देशा केंग का का का मुका की

का का की का क्ष्म का का दे हा में की का का ना नी की की का श्रेष्ठ वह कार्र का का का का का का का का का वह स्वा वेत वत का वा का का मा वा का का व वेत का का मा वर्ष வுளையை வையியாக வுள்ளு வாக்க त्या कुर क्या कुर कर करी का अप का जिल का कुर का कुर कर Journal of a type wort of al ou se sur क्ये ह सम्म अही स्थ अ स्था स्था स्था भी की का का स्थी की हा की क्या का का का का का 11 mm m un an ang agy am an an an so jad an man in เกาลา เมารักรักษาเทา เฦาบุนักาเทาล மு வாள முறைய் விய உடையு வா தெலிய and wind on obs a us and only of us a co வியை உடையாக அவவ வக்கள்கள் ख्य का के का का का की की की का " ॥ का हा का का का का ला का ना थी ना कि ही था का อก อก กางกาง เรา สะ อก อก ลัก เกา เรา เรา เกา พลายา พางางางาง สายาง เกางาง 11 द अर्था मा हा दूका क्यारेंग का ट्रांग का द अमा की ลักษาเหลือก พักษณะผู้ พริกษาผู้ รางกระก ผลาศตา

มีรูสหักงารถึงการงางเกา

(un main un my)

1 20 can inmny 20 year neg 1290 .

XXIX.

11 am in m im in an an an in in an an in in an an in in an an in in an in an in in an i

Beginnin 400

(my in many)

XXX.

arman Samings at sain in parent

XXXI.

का बा ना के द अला का का का ना की का की की हार का का हा न का गा का । का का पा ह गा ह अहार เพณะ ๓ แะ พับ เพลา เม ภา เก ภา กัก เก ๆ ผม เม का का का द अका का का का का का monagan ทู แลง เมลา ๆ เกลา ยๆ เกลา ก็กับ เกลา เราา เกลา en sun ika minjang an mangane GA का भी या हा क्या भी ता की ता कर कर नी क्यों का कर कुत्र में क्यों का क्या कर कुत कर कर करी करी का का का हा ह अरोग का का वह का का या मा का का m 2 m m m m แกลกันริเกล้า เมเกลาสารกลาวกาง เกลาล้า மானம் அமாம் ம் மாமுற்கோள்ட வு ट का का का का का का का मा का द अ मा ? की बड

นักงาง เกลา ผูนภาพ ภาคา เกลา ผูนภาพ

की केन बन की की का न बन करा है अने के कर है है है

m w 2 2 mg an an an an 2 an an g m w of ag का का का ना माना का मार वह का क्ष्म मा (के का के की ทางาง เทเกล้าทั้ง มหาแกา ลัก เทเก ทางกั and in ou men day on ou as an an al an and all un स्ति क्ष्र कि का का का 2 म न का की कर का कि की พางการ การุง งกา ญางกาลาสา งการ 6 สามากา म्बार्ट मह अस मामा का मान अरह अस्तू॥ ने का कि เกเม็นที่ พาร์ ซาเทา เกรา เกา เกา เกา เกา เกา ay man n an 26 sam 1200 am n an 2 m am an n an มู เมื่อง ผา แบบ เมา เมา เมา และ เมา เมา เมา เมา เมา เมา เมา เมา and an and an owing an and an an war an and வாவு கில்வற்ற வாவாவு மாறு வறு வர்வி का का मू का का का ट के का का का का का 11 a sur inak an aspar as will al un as wines and เกิดกลา ลา สา เอา เกาสา สา สา กาก 3000 ลาลา कारी स्थी की का प्रम कर कर कर की की की 1000 का की any we am an an an any my an en an an an vin " un un an an an an an vin 400 37 m an jag 600

कें की कार का का का की का का का का का की की का ம்ப் விவியையியாக வக்கியையியா ट क्ला क्ष्म का मा का हु ॥ का हु क्ष्म हा का क्ष्म को कें को காடாறு மாட்டாவக வைவு வாறு வாக்க เพลาภาพรูผิมพายา กรุลักษๆ กษารู! และ เมตาแลงสาดในเป็นเป็น มา ผู้มี และ มา เมื่อเป็น เขา เขา เขา เขา เขา เขา เขา เขา เขา हा मुका मा से भी था ह सामा भी क्या प्राया ह सामा भी வாவி க வகாவு வ காவ கா அறு வுறு காகு கா 2 00 2 mg an en 2 an min m m an en 2 mg 2 mas no क्रिन्या क्रम् के का का ट वह का का या गान हा क्र @12 10 2 am am whi it 6 4 am + ag an 2 m w an m nan anny way on in an 2 m 2 m my in in भार् केल के का क्या के का मुक्ता का मुक्ता मुक्ता का का ลกวัด ลิก ลากา อาการณีทุ อากุ กล้า อาลากา ப் கா வியியாய் வ வியிக்கு வக்கியி விறு வாறு கொறையா உட்டு வெளியாறு พายาคา ส์เกาสาเมนิเลาเล เกาเก็น หา พายาการขาวการขาวที่ # உள்ள காக காள வக்க அற வர வளவா मा का का का ना का का का द असी का का का का का ตัว 2 เภณิสกเภานิกาลีกาลักการ เกลิลัก เมา ลกบุงบลาลกบิลาลกา เกบิลาโรกะ สิ่งลัก मा मा या पा का के कि की ने की की की के कि का या non Agganan nan an an ananan an an an a Tu am 2 con 2 G A am an an m gan ac on G A om con வில் வக்குவர்க்கு வக்காக்கிய விறு का माना का किया मा का देश की का का न हि की ane was an an as a an on I w ய வார் உள மாள வு வி க அடு கா காவு พากุ เภาบา เกา เภา ภา กัก เภา เกา เกา เกา ร เภา ส เภา ญพนักษา เกา เกา เกา เกา เกา กา (A ภากา மா மா கா மா வரி மிய வி வா வி காவ வி வா கும் का का का का का का का अध्या भी का का 3 का क्षें कि हिस ता ज्या मुक्त मुन उ में की क्या के क्य

ลักลาเกรทุเกลารักษากา เกาลักรเราลักสิ कारी में का में का में का கா வீன் காறு வான்ற வகை கழக்காலுக்க கு க்க அவுவா காள்கள்கள்கள் (and the less of the man the man the series of मा हा का का । e का मा का का के का के या का का காரு விக வாறு வாள்ளாக கால் வாது கூறு พ์กุลาลิก เกลา เกลา เกลา เกลา Il an ici am an in an an and dan था का वें। का का द अका का व अका का का का जा का Eingan as man an an agg an ang ang an ag in क रि की कि कि। का की की की की का की का न का ? की and around a mud an ann le ma de man man on on out al and อีกลัก เทา ลา ๓ ทาง เทลา 6 สเมา ๓ ว ฦ ทาง 6 ส का बह के का भी का का का का की की ผา แก 2 ๆ ทางภาท อัก กับ (กา ล้า 6 . ม.เบ ย) ๆ กา เกา म्याकाम मा मा मा की भी का की का सा का है। พุมทุกเทยง แลกลางรัฐ สิ สาร เทาสิ ลส กา man in ge an in an an in a saman ic of

ការពុក ឧសាយាសិយស៊ា ញ៉ា! ហើយិញ្ហិស អណ្តូ ស្តាលឧសាធារុថ អិច្ឆារូហា នៃ នេ សាស្រីស្តាល ម្យាសិលស្ត្រីមា យាឃិសិស្ស ស ភិក្សាល់ យាឧ ស្វាស់ ការពុម្យា ម៉ាសា កាលរស្តិស្ត ថ អិច្ឆារូ ហា នៃ នេ សា ស្រឹស្សា»

มากรัฐการมี เทลิสาสาร

XXXII.

॥ स्ता के का स्ता सूत् को ना की ना न न का स्त नो स्नु का सी सी स्ता सा ना ७ अस्तु »

្យាសាលសិលសារ៉ា ស៊ី ស្លាស្លី ស្លាស្លា សាលសាល ។ សាល ការាស្រាស សាស សាស្រ្ត ស្លាស្លាស្លាស សាល អស្សា ឲ្យ ការការាសិស សាស្រ្ត សាស សាស សាស សាស

ลิก ผู้ม เพา เข้า เข้า เข้า เข้า เคา คา คา เกา เกา เคา เคา an an an agg an a win an or an an an an an ह का हा की का का का का । हा वह का का ना का in in war an on of of in it in in in an in a क्या क्या क्या क्या क्या क्या mil or as ser on a colunt on a walnut ou ou वाक्रिया के प्रति प्रति वाक्रिया की का भारत พาก สารุงกาทางารุง เกา กักเกิดกางกุ an on wall a was on was and was on was a on เมาห์ มีมากา เมาหา เมา เมาหา เมาหา เมาหา เมาหา " on 5 an un un un sa va san un un a l un un va va un मा का कि का was my man an en en man and भारत है सा सा का का का सा सा का का का का का स्त्रभू मा का ना है के का का है के कि का का का का का मार्य का ला ला का का का का का का का की क्षा । का म हा म हा द का का का मा की का का का mon on en en in is in an es un in in in an का 2 का 2 की की सम् का 2 का का रा 2 की मू का का का

म्म का प्रमुख के की का भा की की की की की की พากา สุขาวักาาการักมุณอาจากา स्ति मा का का कि केंग का का के बहु मा का காற வாழுக் அவதின் நீர்க்ல கி மா உயு கு asn I W Il muse of ar an al an and an and all & war al man on and on an it and on our all and an our का वेंद्र भी गा की भी का अवता ह अवने की विशेष है , का an e an an an an m n an ram an ? की an ou 2 an க்கிறுக்கி மாய்க்கில் குக்கி குக்கி குக்க ญ เลิด เมื่อง พูขามโ.ขย " या भी भी भागी प्रां प्रा क्या क्या की की की की का का का வு காகிவையையு விலியக் பிறுவவளின் வ an an ign an an an ign wo ag an ign an an an an in ing man my | 1 mm m di an in (in an in in in in m m m मा या का कर है असम भी का का का मी के की की unsan un as as so an al als an an at as so don या भग भग व्या का दी है। भी ही का का का का का है। दी का

ने ही कि मानु कि की का है। का का का की का का न का want is as as in man in my se same with in क्यों का क्या की क्या का का की कर का की कर का की कर कर का का द का का का का का मा का मा है 6 का का का 6 34 m m and on on on of on m of as and wh क्रिका व क्षा क्षा का का न क्षा का न का न का न का न का विषया में या है है है है के का मा म बह रा की म บาง เกามา การ เการ์ เกา เการ เการ 6 2 เกา of in my will real work on in we we were the MIN and war an an an an in in war or war. | TE 6 - A W Ti con on 2 av 2 av Ti Ti A A A A A A A A A A ล่า เกายา เกายา เกายา เกาลักษา คา กายาเกา mwan an man an an en un un un 13 an an an an 12 de ag as n as an may n m un gam 2 an 2 an 2 m 6 A as in man " Il an in all an an an and and on an and are as as as as

ผางารีการ์ เมื่อง เมื่

្រាស់ កាស្ត្រ កែនិសាស្ត្រ កានេះ កាស្ត្រ កានិស្ត្រ សាស្ត្រ សាស្ត្រសាសា កោយ សាស្ត្រក់ ៖ ស៊ី ដែរសិស្តិ៍ សាស្ត្រ

भित्य का का की का क्यूक्त का की है क्यू है। क्या कु का का की का की क्यू की क्यू है।

คาง โรง แกร์ กิกุม เกิกุญ เกา และ การกับ भी मा वा का दे का की का भी वा का का की का भार ही ลี เลา เกา เกา เลา เสาเป้า เลา เลา เลา เลา เลา เลา พาลักษาขางสาร 6 มลาสาคางเกลา 216 มากิก வு காகா ளாவி வாவு காவு காக் ஆயல் வாத मान का न का की की का का मान मान है। का का am an 2 an 2 ay any my 111/1 as an an my 4 as Es เล พางกา เก เพาะ ? เก เพาะ ? m เก ล ภามา เก காவு வ வகாகி ள் + காற வகாற வ வ வ விற்ற முய்யாய் வயிய வாகு கியாவிக் wan will ลิก ทั ผิง พิเคา คา 2 ทั พาทั ผา คา เพิ่มิ เต็ के कि के म का का का का का का कि कि हा मां कि மா மா உ கா வ வ வ வ வ கா வ வ வ வ வ வ வ வ காய வகாகாள் வுவாவாற வாகு வுலாள்கள 011 मा भी कार्य कार ह ने कार है का का का का कार

भी का उनका का का का के आ प्रमुख्य का महा करें का

Himmy 50 wany 1290 .

XXXIII,

मा का का की की की की मा का मा का मा का मा का मा का की की की की देंगी का विशेष की की

ทุงสมิกลังกระสุ 19 กุมใหม่า 751

XXXIV.

विष्णा क्षेत्र क्षेत्

พิธ มพาลารูสารขาญกลาง ภากเกิดกลาะ क्षेत्र क्षेत्र का द का का का का का का का की का की คา เกา เกา เรา รณา บานา เกา กา เกา คาว เกา เกา mann

116 अग्रा का 6 अग्रा म क्या मा भी मा का राम का का क्ल क्ल बहु भी क्षा की का करी करी है कि कर ना कर न म्या मा में मेरी ही ही ही भा का का का की 35 का नी म्म का था का का का मा? मा का था का का का क விறு மூக வகிக வக்கு முன்ன கிகிக்க and will all man on water some on an an เทยเท็ก m ๆ เท เก แล กา เก เล เท เก เล man ??

॥ मुळी के के का हा मुखा माना १ ८ का की (की का अ บางกล้า ล้า ล้า ลๆ เกา สาราการ เรียก ลา ลาลู कार भार अभी भी का की भारत का का कार का ७ अ.म् के ए क ने व्ह ए का का कि के का वा का !! உள்ள வர்வு வகையி வுக்கா வர்கள் வருக்க வை மைக் வை ஆற்ற வாக்கள் விறி

maz am 11

Il ad on @ Zeath on owar wild out &

- 5. | क्रिक्ष के क्ष्म क

การ เลืองกับ แกน เรื่อง การ เลือง เลืองการ เลือ

ทม ภ ยา ยา รู เท้ามา เท ๆ กา เทา ร เท ยา เก ยา ผา ร เค้า เท บา เก ที เก้า เท นิ เก้า เก เท เกา เกา ๔ ม ที พิก ผู้ เทา ทา เก บิ เทา ุ เก เท เกิ ๆ เก เกา ร เกา เก เก เก เกิ เกี ผู้ ๔ ม เก เทา เกิ ๆ เก เกา "

> umany (my inmay).

XXXV.

11 m m m m m m m m m 6 24 m m m m 26 2 m m

|| का का कि के की क्ष्म की की का का अ का का का का का का कि के कु के की की का का अ की का का | 50 %

annegation in good to maging t

11 sin m 10 1 30 m wang 1295 w

XXXVI.

मा ह्या की का की की की का की आ

வ வி எ பா ம வி வி வா பி வ அம் வி வி வி வி வ வ ஆ வ வா வ வி தே வ் கி வி கி வி வி வி வி வ 1 50%

] eg m. 6 . 2 w En en z en w ik in en m en n g g m w en n en w 6 . 2 m n er en p en in a m ien en m m an m in w z «

(कार्यक्षात्राक्ष्म)"

Homen inmany 6 sammy 1295.

XXXVII.

กลุ่ม ลิ ลากุมนิกมีรุงกลกุมิน พุ ลิลัก มามมากาก การ ลลาสู ลู ล ลวุลุ นาก ลานีกวุง

amy higning Besony

11 immy 15 num 1290.

XXXVIII.

ลีกฎ เภ m 2 เภ m 2 เก กบ เภ เก เฦ เภ รุ เท กฎ
मान केत का द क्र का का कंग न का निक के हिं का न
me no man man man so in monny
เกมาลา 1837 เมื่องเลา เมื่อเมนาลา 64 สา
มิสิเติย์ มเบเสลิกิศักรายๆ 6 มราผิงเทเๆ
ผา 67 กาลา จุ อาราสา สา สา สา สา สา สา สา
am om m am am am am am am am ong :
En ou am (12.50
ราคา เมา พิวาร รัก ผู้ ม เม เกา ม เม เ
200 200 may 2
En 11/1 10 En 11/1 10 11/1 10
15 mg
ส
6 /500 & an
Il any and and a work and an an an an an an
त्रा का
1. En En us an un un un un 2 m 2 den is in
org w
CT.

b. any any am 2 our 2 ain am non w

្រស្យា ភិខ្មាល អ្នក សា ខេត្ត ស្នា ស្នា សា សា អា អា ក្នុខ ។ ក្នុង សា សា សា សា កា ខ្យាល់ សា អា ស្នា ស្រ

Il my y y y m m m m m m m m m m m m m ยาลาเรา มาราเทอลา 6 มณา 200 เราลากาก म्हार्मिम् वार्षा राहर र कार का दा द अला वा वह नाम wal ad and one on wall ad a could was you we and ter ou @ wall ad an ou ou al ou al a gen gen out यां या का का का या या का का का ना का का वा 15 - 16 20 01 m w/ w m/ 15 00 00 m m -12 ทุงารักษร ทุยา ภายา เกรา ทางทุกท เยางเบา กา กาย का की की अप सा का दे का की का की का क an my mi man on an an an an on so on an an an an an 6 अ मा का मा का हा हु ता का वर्ण को का का अ का ना 2001 an an an an an an 500 मा की द्वारा ह अवसी है क्या मा वात का है कर है क्या के कर क्या 36 क्या भारता हो भी क्या है। 100 द अंका का

का निष्ण का निकारता ६ अस्म स्वास्त का सामा का का स्वास्त का सामा का स

ลภายสัญหายแ

XXXIX.

> (कार्य का दासी)" (कार्य का दासी

XL.

រាល់ សេត្ត ខេត្ត ស្រ ខេត្ត ស្រ ខេត្ត ខែការ ស្រា ខេត្ត ស្រ ខេត្ត ស្ត ស្រ ខេត្ត ស្រ ខេត្ត ស្រី ខេត ស្រី ខេត្ត ស្រ ខេត្ត ស្រី ខេត្ត ស្រី ខេត្ត ស្រី ខេត្ត ស្រី ខេត្ត ស្រី ខេត្ត ស្ត ស្រី ខេត្ត ស្រី ខេត្ត ស្រី ខេត្ត ស្រី ខេត្ត ស្រី ខេត្ត ស្រី ខេត

mount serion

11 inm ny 27 april 1284 "

XLI.

การ์การ์การ์การ์การ เการ์วา

> िल्लास्टेडिस्स्मिन्स् ला (काम्स्टेन्स्सिन्स्स्)

XLII.

กลักษา (เกาการเกาก่าง เลือก เลือก สาราชาย พ.ศ. พ

 6 அல ஸ் இழு 2 ஸ் ர மா 2 மி மா ம் ஒ 6 அ மூர்ள இ அல் ஸ் ரம் ம் நல மி மா ம் 12 வி மீ மா / 20%

រ. ឃ្លាំ ភាសាល្ខាស់ សា ភាកា ស្នេះ ស្លេខាស់ ឃ្លាំ សា ភាសាល្ខាស់ សា ភាសាល្ខាស់ សា ភាសាល្ខាស់ សា ភាសាល្ខាស់ សា ភាសាល្ខាស់ សា ភាស្លាំ សា ភាសាល្ខាស់ សា ភាសាលាល្ខាស់ សា ភាសាល្ខាស់ សា ភាសាល្ខាស់ សា ភាសាល្ខាស់ សា ភាសាល្ខាស់ សា ភាសាលាល្ខាស់ សា ភាសាលាលា ភាសាលាល្ខាស់ សា ភាសាលាលា ភាសាលាល្ខាសាសាលាលាលា ភាសាលាល្ខាស់ សា ភាសាលាលា ភាសាលាលា ភាសាល្ខាស់ សា ភាសាលាលា ភាសាលា ភាសាលាលា ភាសាលាលា ភាសាលាលា ភាសាលា ភាសាលាលា ភាសាលាលា

வு வ்வ வு (குறு வற்றி தி தி கு வட ப் கிகியி मा भा वह वा का मा मा का अ मा का ! an man an was rapen way and and and an are an are मुका का का मां भारत में एक एक का द मा द अस्ता की एक mm (3. m ang an en an an an an an ag an ang भाषा की ता ही वर्ष है स्था का वह का का मा का महा का मा या व्या के विकास मा का मा का के दे हैं का ? की क्रिक क्ष्म क्ष्म का श्रम का का १ का का भाग मार का १ @ अ का की का का का नाई का की अ करी मार्वित्रका का हा का का का का का न का न का न का वाम बनु हा बेह बनु का बार का बन का का का न वाम का न ny an an an ng am any an an am ag an whan USN W

१६ अध्य क्षेत्र क्ष्म क

พฎ เมื่า เม เก ๕ มเม แม เม เม เล เล 2 m เท เท ญ เม เก ๕ ม เก เกิ เลิ เมิ เล วิ่า แฎ เภ เก เกิ ก เก ฦ กา วุ

Hosted by Google

พฦง พฦง ๛มพละ ริงมีพลัพสายงาน พัพธา พฦง ๛มพละ ริงมีพลัพธา พฦง ๛มพละ ริงมีพลัพธา พฦง

wanter and market of the contraction of the contrac

XLIII.

มาค่า ราชา รา กุลา คา เก้า คา เก็า พิเวธ มาคา แ

मिला में का क्षेत्र क

4 (100 minus)

XLIV.

|| หาว้า m ที่กหูกา พ้า m 6 4 กัก พฤภาพิก ผีก เภ พิว 6 4 พฤ "

Congrange of me

யுள்கொள்ளார் 7 அப்படிக்க 1870 m

XLV.

Lagrin nali (mog in mog)

pm Drigmy 2 num 1290.

XLVI,

॥ का की की की का गण की ना गण का में की का का का की की (की का में

มา เมื่อง เมื่อง เมื่อง เลือง เมื่อง เมื่อง

angrapaninman (unganang)

XLVII.

พพได โพรนีรสิมนีมี ถูญเกษาแผ่ตูก<

(ผลิณิตหาสากาสาการ์เมิ)

1 Summy 8 many 1870.

XLVIII.

many & was an an man may any les

(mensinan m)

η sin m my 14 κοη som 1876 «

XLIX.

निर्धा तथा व अस्तु को का भा अद अस्तु का भा केते, स्तु 1876 सा का भा भा भा का में स्तु का का में स्तु की कि का में स्तु का का स्तु का में का भा स्तु ह

न्या मुस्ति का क्ष्मिक का नो का क्ष्मिक का का का का ना क्ष्मिक का का का ना क्ष्मिक का नो का का का का का का नो की की की का की ना का

กะ เอานินิค เกาสุดาย เกาสุดาย เกาสิดิน เกานินินัก เกาสุดาย วัดเทาการณ์ เกาสารณ์

(any charant)

poin maying na my

12) 20 20 20 (m 3 20 20 1) 20 20 20 1

(Ano in in a se in a

Much with wall

II.

ស្រ្ទាក់ ខាងក្នុង ខាងក្ប

LII.

I m to the to the

ๆหารุงกนี้ ๆ พบบ เก & ม เก เม เท ๓ เก กั พุเดิ เตุ หิ ๆ ผู เบ เท หิ พู ๔ ม เก ม ฑ เก มี ชิก ทั แ

LIII.

អ្នក ស្លាស់ ខាងប្រាស់ ខាងបាន ខាងបាន

ungg sin county

11 is muy

LIV.

្រាស្ត្រ នេះ ស្រាស្ត្រ ស្ត្រ ស្ត្រ ស្ត្រ ស្ត្រ នេះ ស្ត្រ ស្ ស្ត្រ ស្ត្

> வ்ளாழு வழுவ்வரும

LV.

โคมชางีเลามุของการสาราชา

แลงสายาลาสายาลาสายาลาสายาลาสายาลาสายาลาสายาลาสายาลาสายาลาสายาลาสายาลาสายาลาสายาลาสายาลาสายาลาสายาลาสายาลาสายาล

ๆ ทบบลา [1750 (ฌๆทบๅ๒ๅ๒ๅ๕ฺรุกษๅ๛ํ๛ฦ ๗๛๛๛) ๛ทิฌฺณฑ๛ฑ๛ทั่ง ๑๛ฑ พี่๛ั๛งเมษายะ

c. กุราบาย พาธากานั้งกายกากการการ (... พาธากานั้ง พาษา พัง พลาบานั้ง พาธาานาก เลื่อนูญ การก พาพ พัง พลาบานั้ง พาธาานาก สุโฏลา พ้า พาง

immy

un per conis cons

ผมสภา นิเบาลากูระกษากลา

อมสำกับระเรษย์ อุทยามระหน้

LVI.

ខ្មែលពេលវុ x (បុរីភាព)នោះ នោះ

equipment is	ลี ๆ กระบางกำหนึ่งเลยกูลกุ	ย์การก เการ์	
3 และเกลา 18 8 19 20	1 มีนารมหาราชา 1 มหาราช มิงกฎหาราชา 4 = การมาการที่ เมอาการาช / 0.60	/ 2 ,. 16 3 2	35 00 00 40

n' y sada sa m ny

(engineragiqueraginaling)

LVII.

หา คา เรา เรา คำ เกา คา เม วิที โบ un 2 (20 2 00 1 vy 6 A 9 20 00 6 A 49 m y 1 1 20 m 6 ผลๆ เกล้ารุณา 6 ผกุญากับ 6 ผลๆ กา ทุเภลก เก็ யு மா மா மி (இந்தை கா அ வ ஆ வ கா கா நி อาการ์การ์การาย เกาะ கா மோவும் நா ளவு 8 6 அளுவு 1870 வ 2 கர் 1297 @ 50 an A an con 2 an 2 an am on my an in an เก ลิก เม คฎ ลก ๆ เม ลภ G அลๆ เลิ (ลิก ลก ลัก ลฎ เภ 1850 w 2 का का का का का अनु का my enn: e un an an 2 m 2 an ag man 10 an ag 220 as y Es สกามสากา ลาพาบาล สกาการุลา 6 Acim 2 ๆ ทางกา ฉัก เภา ฉัก เรก เรก เกา ขบาง เป๋า เก ๆ เรา ๆ का म का का हिं का का है कि का का का का

> ng Erng ti Bay Engly (enggrinerag)n

LVIII.

Il is are do in in in a will 00 00 00 00m เกล้าแก เกลา เกล้าเกลา เกลา เกลา เกลา อาจา ว่าเก อา (เลิ ๆ เรา เกาะเรา 6 วง คุ กา ลา ว่า ทิ B m m & -13 m h & m m m m m 2 m 2 m w व अम्या में व अस्तु वा में मा असा में की ए का कि की का का मा का कार ह अबनु बन का मा का की का ना ลีกรักษาการการเลาเร็กสูญเลิกสุดเลา ता भा भा भा भा का वहा का है। กุ ทางเกลก แทลภ 6 Aun 5650 man

<u>മത്തെത്തെയയെന്നെ പ്രത്യത്ത്ത്ത്</u>

Jan 11

मि क्या प्राप्त प्राप्त की की की की की प्राप्त का निका का का का का का का का का की की का का का गु 1 81 -1 201 man an an a 3 6 - 3 an an an an an an y war an and an

का मुक्ता का गुत्र की की

LIX,

Harzy on aspariasin mount เมลิงทาง เมากับกา ทุงภาค 00,000 an am BA CEN 100

תו מו מון מו מו מו my man an an an an am an an 6 अ ही on m म का का मा की की मा का ना र केल की का मा का मा का मा का का का का का का मा ล็ฒิลาขาวุลาสาก 6 AM கா உளவா விலி விலி கா 2 அக்கா 6 A मी का उस प्र क्ष क्ष का की का की का की का का றவாற்கா கா வாவா வா வா 5 Aun 5 may 250 ang En amp 5 Aun ag am மாயாக்கு வரிக்கியா பாக் 200 கிக மாறு வார்க் மா மா வா வா வா வர்கள் கா கா am อา กา ญ เกลา กา กา กา กา กา กา กา ส.กา क्या अ क्या म का द क्या कि की का मा ।। क्या में। क्या का का क्या क्या का का वा वा वा का मा टक्त का का का का का का का का का


(non any sin errory) &

INILAH KITAB-KITAB JANG BOLEH DIBELI DI PERTJETAKAN GOEPERNEMEN:

Tembang Djawa nganggo moesiek, kanggo ing pamoclangan Djawa
Earste decl. (Jav. kar.). / 0.45
Idom Twode dod
Tjarita Erman (Bendrik van Eichenfels) door Raden Ajoe Lasminingrat
Hikajat Robinson Crusoë, door A. F. con de Wall (Lat. kar.) / 0.35
Scrat Poerwotjarito Bali, door Ruden Sosrowidjojo (Jav. kar.) / 0.40
Elmoe oekoor Boemi (Landmeetkunde) door Dr. W. Palmer can don Brack (Jav. kar.)
Doewa belas Tjeritera dan Peröepamaan, terkarang pada bahasa melajoe, dengan mengikaet karangan bahasa walanda, door A. F. von de Wall (Lat. kar.)
Kitab Peladjaran Ilmoe Hitoengan, door L. K. Harmsen, (Lat. kar.)
Tjarijos sao sawelas hidji (Ell verhalen) door Mus beij Murto Admodjo (Jav. kar.) f 0.20
Lajang kawroch hetoeng sapisan, bab pangetoengnge tjatjah, woetoeh lan peljahan (Javaansch Rekenbock), Jav. kar
Roepa-Roepa Peladjaran pada memboekakan anak-anak poenja akal. (Lat. kar.). / 0.10
Darmawasito (Zedeleer, door K. F. Winter, Tweede deel (Jav. kar.) f 0.20
Lajang dongengnging sato hewan (57 Fahelen) door K. F. Winter, Tweede deel (Jav. kar.).
Techibael Hikaist (lat. kar.)
Tiakan-tiakan rampai-rampai, (Arab. kar.) / 0.42
Boegineesch-Hollandsch Woordenboek met Ethnographische Atlas, door Dr. B. F. Matthas (Lat. en Boeg, kar.)
Boeginesche Spraakkunst, door Dr. B. F. Matthes (Lat. en Boeg.
300 Rekenkundige voorstellen voor eeestleginnenden, door Radoo Forda minute (Sound, kar.)

Menjatakan hal menanamkan padi dan lain-lain tanam-ta- naman, door D. Gerth von Wijk (Lat. kar.)
Kitab Tjatjarakan Soenda (Soendassel Soel
K. F. Holle (Lat. kar.)
Warnasari atawa roepa-roepa dongeng, door Roden Ajoe Lasmi- ningrat (Socud kar.)
Hamong tani (de vriend van den Javaanschen Landman), door F. L. Winter, Tweede deel (Jav. kar.) . f 0.26
Withous, Tweede druk (Jav. kar.) Landman, door H. K. H. (0.22)
Landmeetkunde, door Dr. J. J. ran Limburg Browner (Jav. Lan.) f 0.06
Menschelijke Ligehaam, door A. Sehreiber (Mandle kor.) f 0.27
Twaalf vertellingen, door A. Schreiber (Maudh. kat.) / 0.31
Wawatjan Pandji Woeloeng (Seendaasch) door Raden Hudji Mocha- mod Mocsa (Lat. kar.) (0.36)
Kitab-Edja jaitoe pada menjatakan permoslaan beladjar membatja, door L. K. Harmsen (Lat. kar.)

Hosted by Google



Hosted by Google

NIEUW BRIEVENBOEK

VOOR DE

SOENDASCHE SCHOLEN

ONDER LEIDING VAN DEN REER

MA. M. ME OD M. M. M.

SAMENCESTRILL DOOR

RADEN KARTA WINATA

- Course

BATAVIA LANDSDRUKKERII 1876

